



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931

No. 63]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010” कहा जाए।
2. (ii) “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाएं जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009, 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (1) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची 1, खंड क.1.1 में निम्नलिखित अंतुक जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए :—

“बशर्ते कि 2008/2009 में यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” में कि ए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाए गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और ‘ए’ श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।”

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा/100/09]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि.(ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

## निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं (50 छांडिले)

मद विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक)	जोड़ (वर्ग मीटर)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
<b>प्रशासनिक ब्लॉक</b>				
प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय		36	36	
स्टाफ रूम		54	54	
कॉलेज परिषद् रूम		80	80	
कार्यालय अधीक्षक रूम		10	10	
कार्यालय		150	150	
अभिलेख रूम		100	100	
कॉमन रूम - छात्र		50	50	
— छात्राएं		50	50	
कैफेटेरिया		100	100	
केंद्रीय पुस्कालय		1000	1000	
व्याख्यान थियेटर	3	220	660	80 के बैठने की क्षमता
	1	400	400	150 के बैठने की क्षमता
ऑफिटोरियम	1	500	500	250-350 के बैठने की क्षमता
कॉमन प्रयोगशालाएं	6	120	720	
	2	75	150	
केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	1	100	100	
विभाग का जोड़			<b>4160</b>	
<b>विभाग</b>				
<b>शरीर-रचना विज्ञान</b>				
प्रदर्शन रूम	2	30	60	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान
विच्छेदन हाल	1	175	175	कम से कम 50 छात्रों के लिए स्थान
म्यूजियम		100	100	म्यूजियम में पढ़ने के लिए 15 छात्रों के लिए स्थान
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	20	20	
दस्टर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>442</b>	
<b>जीव-भौतिकी सहित शरीरक्रिया-विज्ञान</b>				
प्रदर्शन रूम	1	30	30	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान

1	2	3	4	5
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	15	15	
ट्युटर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>132</b>	
जीव-रसायन				
प्रदर्शन रूपम	1	30	30	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
ट्युटर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>129</b>	
रोग-विज्ञान				
प्रदर्शन कक्ष	1	25	25	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान
प्लूजियम	1	60	60	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	14	28	
ट्युटर/प्रदर्शक	3	15	45	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>215</b>	
रक्त बैंक ( निम्नलिखित सहित )		100	100	
(क) पंजीकरण और चिकित्सा				
परीक्षण रूपम				
(ख) रक्त-संग्रहण रूपम				
(ग) रक्त समूह सॉरम-विज्ञान				
की प्रयोगशाला हेतु रूपम				
(घ) संचारी रोगों जैसे हेपाटाइटिस,				
सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी				
आदि की प्रयोगशाला हेतु रूपम				
निष्कीटन और वार्षिंग रूपम				
रेफरेशमेंट रूपम				

1	2	3	4	5
भंडार तथा अभिलेख रूपम सूक्ष्मजीव-विज्ञान				बेक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, पेरासिटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस और इम्युनोलॉजी प्रत्येक के लिए
सेवा प्रयोगशाला	7	25	175	
म्यूजियम	1	40	40	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
दस्तुर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			314	
औषध-विज्ञान				
प्रदर्शन रूपम	1	30	30	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान ।
म्यूजियम		75	75	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
दस्तुर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			204	
विष-विज्ञान सहित फोरेंसिक				
चिकित्सा				
प्रदर्शन कक्ष	1	30	30	कम से कम 25-30 छात्रों के लिए स्थान ।
ऑटोप्सी ब्लॉक		400	400	
म्यूजियम		100	100	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
दस्तुर/प्रदर्शक	1	15	15	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूपम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूपम	1	12	12	
विभाग का जोड़			614	
कम्प्यूनिटी मेडिसिन				
म्यूजियम		100	100	

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण				
स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र				
शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र				
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	15	15	
सांख्यिकीविद एवं व्याख्याता	1	12	12	
एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता	1	12	12	
ट्रयुटर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	15	15	
		229		
विभाग का जोड़				6539
कॉलेज जोड़				
अध्यापन अस्पताल				
डीन का रूप		36	36	
चिकित्सा अधीक्षक रूप		36	36	
सहायक कर्मचारियों के लिए		150	150	
अस्पताल कार्यालय				
आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय		200	200	
पूछताछ कार्यालय		50	50	
स्वागत रूप		200	200	
स्टोर रूप		300	300	
केंद्रीय चिकित्सा अभिलेख अनुभाग		150	150	
लाइनेन रूप		300	300	
अस्पताल और स्टाफ समिति रूप		50	50	
टाइप 1 गैलरी का केंद्रीय व्याख्यान		330	330	100 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता।
थियेटर				
केंद्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग		200	200	
केंद्रीय प्रयोगशालाएं		150	150	
केंद्रीय आपातकालीन विभाग (लघु ओ.टी. सहित)		150	150	
केंद्रीय अस्पताल फार्मसी		100	100	
केंद्रीय रसोई		150	150	
इनसिनेरेटिनग प्लांट		40	40	
संयुक्त सुविधाएं		2592		
अस्पताल में नैदानिक विभाग ( 50 व्याखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तरों की संख्या 400 है ) :				
बिस्तर/यूनिट				
जनरल मेडिसिन		96/3		
बाल-विज्ञान		48/2		
टी.बी. तथा श्वसन रोग		16/1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डीवीएल	8/1			
मनोरोग-विज्ञान	8/1			
जनरल सर्जरी	96/3			
विकलांग-विज्ञान	48/2			
नेत्रविज्ञान	16/1			
ईएनटी	16/1			
प्रसूति-विज्ञान	30			
स्त्रीरोग-विज्ञान	14			
पोस्टपार्टम	4 48/2			
<b>विभाग का जोड़</b>	<b>400</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	

7 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर (2 बिस्तरों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, बिस्तरे की चौड़ाई 1 मीटर)

#### नैदानिक विभाग-अंतरंग

नई इयूटी रूम के लिए स्थान	20	20
नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला	15	15
परीक्षण और उपचार रूम	15	15
वार्ड पेंट्री	15	15
लाइनेन और अन्य उपस्करों के लिए	15	15
भंडार रूम		
स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का	20	20
इयूटी रूम		
प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय	20	20
अन्य यूनिट स्टाफ प्रमुख का रूम	20	20
नैदानिक प्रदर्शन रूम (प्रत्येक	20	20
विभाग के लिए कम से कम एक)		
<b>14 वार्डों/12 विभागों के लिए जोड़</b>		<b>2240</b>

#### आँपरेशन थियेटर यूनिट

रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम	15	15
तैयारी रूम	15	15
आँपरेशन थियेटर	75	75
पोस्ट-आँपरेटिव रिकवरी रूम	30	30
सॉयल्ड लाइनेन रूम	15	15
उपकरण रूम	15	15
निष्कीटन रूम	15	15
नसाँ का रूम	20	20
सर्जन एनेस्थेटिस्ट का रूम	2	20
सहायक का कमरा	20	20
छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा	60	60
भंडार रूम	15	15
बांधिंग रूम	10	10
मरहम-पट्टी रूम	10	10
केंद्रीय निष्कीटन इकाई	10	10
लौंडरी	10	10
<b>9 ओ.टी. के लिए जोड़</b>	<b>9</b>	<b>3375</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मेटलिंग उपचार के लिए रूपम		50	50	
अभिलेख रूपम		100	100	
चिकित्सा औतिक प्रयोगशाला		50	50	
बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूपम		200	200	
अंतरंग विस्तरे		200	200	
लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी		70	70	
लिए दिवा देखभाल बार्ड				
विभाग का जोड़			920	
फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास	1500		1500	
नैदानिक विभाग-बहिरंग	6000		6000	
रोगियों और परिचरों के लिए प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूपम				
पूछताछ और अभिलेख रूपम				
प्रत्येक के लिए परीक्षण रूपम और	4			प्रत्येक विभाग के लिए
मामले से संबंधित प्रदर्शन कक्ष				
औषधालय				
शल्यचिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं के लिए मरहम-पट्टी रूपम				
नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूपम, डार्क रूपम, ड्रेसिंग रूपम, नेत्र विभाग में प्लास्टर रूपम, प्लास्टर कटिंग रूपम				
ईएनटी विभाग में साउंड प्रूफ ऑडियोमीट्री रूपम, ईएनजी प्रयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष				
बालचिकित्सा विभाग में बाल कल्याण, इम्युनाइजेशन रूपम आदि				
ओजीबी विभाग में प्रसूति-पूर्व, परिवार कल्याण, स्टरलिटी, कैंसर अभिज्ञान				
नैदानिक				
दंत-चिकित्सा अनुभाग				
ओपीडी जोड़		6000		
अस्तपाल जोड़		18673		
आवासीय क्वार्टर/छात्रावास				
शिक्षण के 20% की दर से क्वार्टर (88 का 20% = 17)	200	3400		
गैर-शिक्षण स्टाफ के 20% की दर से क्वार्टर (200 का 20% = 40)	100	4000		
नसों का संख्या के 20% की दर से क्वार्टर (150 का 20% = 30)	100	3000		
रेजिडेंट की संख्या के 100% की दर से = 74	30	2220		
इंटर्न्स की संख्या के 100% की दर से	1000	1000		
187 छात्रों के लिए छात्रावास (अर्थात् 250 का 75% = 250)		1870		
आवासीय परिसर का जोड़		15490		
कुल जोड़		40702		
15% जोड़ें		6105		
सकल जोड़		46807		

## MEDICAL COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein.

3. In Schedule (I), Clause A.I.1 of the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” vide Notification dated 08-07-2009, 13-11-2009 & 30-01-2010 under the heading ‘CAMPUS’, be further amended by inserting the following proviso in Clause A.I.1 in Schedule I :—

“Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute— i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in “Minimum Requirements for the Medical College for 50 Admissions Annually Regulations, 1999” as amended in 2008/2009 as shown in separate table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/09]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 & 30th January, 2010.

## APPENDIX

## BUILT UP AREA REQUIREMENTS (50 ADMISSIONS)

ITEM DETAIL	NO.	AREA (Sq.m.) (each)	Total (Sq.m.)	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Administrative Block</b>				
Principal/Dean's Office		36	36	
Staff Room		54	54	
College Council Room		80	80	
Officer Superintendent's Room		10	10	
Office		150	150	
Record Room		100	100	
Common Room - Boys		50	50	
Girls		50	50	
Cafeteria		100	100	
Central Library		1000	1000	
Lecture Theatres	3	220	660	80 seating capacity
	1	400	400	150 seating capacity

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Auditorium	1	500	500	250-350 seating capacity.
Common Laboratries	6	120	720	
	2	75	150	
Central Research Laboratory	1	100	100	
<b>Department Total</b>			<b>4160</b>	
<b>DEPARTMENTS</b>				
<b>Anatomy</b>				
Demonstration Room	2	30	60	Accommodate atleast 25-30 students.
Dissection Hall	1	175	175	Accommodate atleast 50 students.
Museum		100	100	Accommodate 15 students to study in the museum.
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	20	20	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>442</b>	
<b>Physiology including Bio-physics</b>				
Demonstration Room	1	30	30	Accommodate atleast 25-30 students.
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	15	15	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>132</b>	
<b>Biochemistry</b>				
Demonstration Room	1	30	30	Accommodate atleast 25-30 students.
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>129</b>	
<b>Pathology</b>				
Demonstration Room	1	25	25	Accommodate atleast 25-30 students.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Museum	1	60	60	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	14	28	
Tutor/Demonstrators	3	15	45	
Department Office/ Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>215</b>	
<b>Blood Bank (includes)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
(a) Registration & Medical Examination Room				
(b) Blood Collection Room				
(c) Room for Laboratory for Blood Group Serology				
(d) Room for Lab. for Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies, etc.				
(e) Sterilisation and Washing Room				
(f) Refreshment Room				
(g) Store and Records Room				
<b>Microbiology</b>				
Service Laboratory	7	25	175	Each for Bacteriology, serology, virology, parasitology, mycology, tuberculosis and immunology.
Museum	1	40	40	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/ Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>314</b>	
<b>Pharmacology</b>				
Demonstration Room	1	30	30	Accommodate atleast 25-30 students.
Museum		75	75	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/ Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>204</b>	
<b>Forensic Med. including Toxicology</b>				
Demonstration Room	1	30	30	Accommodate atleast 25-30 students.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Autopsy Block</b>		400	400	
<b>Museum</b>		100	100	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	1	15	15	
Department Office/Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>614</b>	
<b>Community Medicine</b>				
Museum		100	100	
Primary Health Centre/Rural Health Training Centre				
Urban Health Training Centre				
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	15	15	
Statistician-cum-Lecturer	1	12	12	
Epidemiologist-cum-Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department Office/ Clerical Room	1	12	12	
Non-teaching Staff Room	1	15	15	
<b>Department Total</b>			<b>229</b>	
<b>COLLEGE TOTAL</b>			<b>6539</b>	
<b>Teaching Hospital</b>				
Dean's Room		36	36	
Medical Superintendent's Room		36	36	
Hospital offices for the supportive staff		150	150	
Waiting space for visitors		200	200	
Enquiry Office		50	50	
Reception		200	200	
Store Rooms		300	300	
Central Medical Record Section		150	150	
Linen Rooms		300	300	
Hospital & Staff Committee Room		50	50	
Central Lecture theatre of gallery type	1	330	330	Seating capacity of 100 persons.
Central Registration and Statistice Department		200	200	
Central Laboratories		150	150	
Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.)		150	150	
Central Hospital Pharmacy		100	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Central Kitchen		150	150	
Incinerating Plant		40	40	
<b>Common Facilities</b>			<b>2592</b>	

**Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 50 admission annual is 400) :—**

	beds/units
General Medicine	96/3
Paediatrics	48/2
TB & Respiratory Diseases	16/1
DVL	8/1
Psychiatry	8/1
General Surgery	96/3
Orthopedics	48/2
Ophthalmology	16/1
ENT	16/1
Obstetrics	30
Gynaecology	14
Post Partum	4            48/2

7 Sq.m. per bed (1.5m  
distance b/w 2 beds;  
Bed width-1m')

Department Total	400	2800	2800
<b>Clinical Departments - Indoor</b>			

Accommodation for Nurses Duty room	20	20
Laboratory for routine examinations	15	15
Examination and treatment room	15	15
Ward Pantry	15	15
Store room for linen and other equipments	15	15
Resident Doctors & Students duty room	20	20
Office for Heads of each department & Heads of units	20	20
Room for other unit staff	20	20
Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department)	20	20
<b>Total for 14 Wards /12 Departments</b>		<b>2240</b>

Operation Theatre Unit			
Waiting room for patients	15	15	
Preparation room	15	15	
Operation Theatre	75	75	
Post-operative recovery room	30	30	
Soiled Linen room	15	15	
Instrument room	15	15	
Sterilisation room	15	15	
Nurses room	20	20	
Surgeon's and Anaesthetist's room-	2	20	40
Assistant's room		20	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Observation Gallery for students		60	60	
Store rooms		15	15	
Washing room		10	10	
Dressing up room		10	10	
Central Sterilisation Unit		10	10	
Laundry		10	10	
<b>Total for 9 O.T.s</b>	<b>9</b>		<b>3375</b>	
<b>Labour Room</b>				
Waiting room for patients		15	15	
Preparation room		15	15	
Labour room		100	100	
Post Partum Recovery Room		75	75	
Soiled Linen room		15	15	
Instrument room		15	15	
Sterilisation room		15	15	
Nurses room		20	20	
Surgeon's and Anaesthetist's room		20	20	
Assistant's room		20	20	
Observation gallery for students		30	30	
Store rooms		15	15	
Washing room		10	10	
Dressing up room		10	10	
Eclampsia Room		75	75	
Laundry		10	10	
<b>Total for Labour Room</b>			<b>460</b>	
<b>Radio-diagnosis</b>				
Room for 300mA, 500mA, 800mA				
IITV System, Fluroscopy System		36	36	
Ultrasound room		15	15	
Room for 60mA Mobile X-Ray System		15	15	
Accommodation for CT Scan System		80	80	
Store room		15	15	
Museum		25	25	
Waiting room		40	40	
<b>Department Total</b>			<b>226</b>	
<b>Anaesthesiology</b>				
Accommodation for the Anaesthesia Deptt. in Operation theatres				
Office for HOD & Heads of Units		20	20	
Accommodation for other unit staff		20	20	
Clinical demonstration rooms		20	20	
<b>Department Total</b>			<b>60</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Optional Departments</b>				
<b>Radiotherapy</b>				
Teletherapy Unit	100		100	
Intracavitory Treatment room	50		50	
Endocavitory surface mould therapy room	50		50	
Planning room	50		50	
Room for metalling treatment	50		50	
Record room	100		100	
Medical physics lab.	50		50	
Out patient waiting room	200		200	
Indoor beds	200		200	
Day care ward for short chemotherapy/radiotherapy	70		70	
<b>Department Total</b>			<b>920</b>	
Physical Medicine & Rehabilitation	1500		1500	
<b>Clinical Departments - out door</b>	<b>6000</b>		<b>6000</b>	
Waiting/reception space rooms for patients and attendants				
Enquiry and record room				
Examination rooms & case demonstration rooms for each	4			For each department
Dispensary				
Dressing room in surgery & its specialities				
Refraction rooms, dark rooms, dressing rooms in Ophthalmic Deptt.				
Plaster room, plaster cutting room etc. in Orthopedics Deptt.				
Sound proof audiometry room, ENG Lab., speech therapy rooms in ENT Deptt.				
Child welfare, immunization room etc. in paediatrics Deptt.				
Antenatal, family welfare, sterility, cancer detection clinics in OBG Deptt.				
Dental Section				
<b>OPD TOTAL</b>			<b>6000</b>	
<b>HOSPITAL TOTAL</b>			<b>18673</b>	
<b>Residential Quarters/Hostels</b>				
Qtrs. @ 20% teaching (20% of 88 = 17)	200		3400	
Qtrs. @ 20% Non-teaching (20% of 200 = 40)	100		4000	
Nurses @ 20% (20% of 150 = 30)	100		3000	
Residents @ 100% = 74	30		2220	
Interns @ 100%	1000		1000	
Hostels for 187 students (i.e. @75% of 250)			1870	
<b>TOTAL RESIDENTIAL COMPLEX</b>			<b>15490</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>40702</b>	
ADD 15%			6105	
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>46807</b>	

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010” कहा जाए।
- (ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाएं जाएंगे :—

3. दिनांक 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (1) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची 1, खंड क.1.1 में निम्नलिखित परंतु जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए :

“बशर्ते कि 2008/2009 में यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” में किए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाएं गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) तथा ‘ए’ श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआरएफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।”

सं. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा./100/09]

**पाद टिप्पणी :**—प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

#### निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं ( 100 दाखिले )

मद विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक)	जोड़ (वर्ग मीटर)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
<b>प्रशासनिक ब्लॉक</b>				
प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय		36	36	
स्टाफ रूम		54	54	
कॉलेज परिषद् रूम		80	80	
कार्यालय अधीक्षक रूम		10	10	
कार्यालय		150	150	
अभिलेख रूम		100	100	
परीक्षण हॉल		300	300	
कॉमन रूम - छात्र		100	100	
- छात्राएं		100	100	
कैफेटेरिया		200	200	
केंद्रीय पुस्तकालय		1600	1600	

1	2	3	4	5
व्याख्यान थियेटर	3	330	990	120 के बैठने की क्षमता।
	1	660	660	250 के बैठने की क्षमता।
आँडिटोरियम	1	800	800	500-700 के बैठने की क्षमता।
कॉमन प्रयोगशालाएं	6	170	1020	
	2	75	150	
केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	1	100	100	
विभाग का जोड़			6450	
विभाग				
शरीर-रचना विज्ञान				
प्रदर्शन रूम	2	45	90	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
विच्छेदन हाल	1	250	250	कम से कम 100 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम		150	150	म्यूजियम में पढ़ने के लिए 25 छात्रों के लिए स्थान।
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	20	40	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			647	
जीव-भौतिकी सहित शरीर क्रिया-विज्ञान				
प्रदर्शन रूम	1	45	45	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	20	40	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	15	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			157	
जीव-रसायन				
प्रदर्शन रूम	1	45	45	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			174	

1	2	3	4	5
रोग-विज्ञान				
प्रदर्शन रूम	1	45	45	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम	1	150	150	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	3	12	36	
द्युटर/प्रदर्शक	5	15	75	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			378	
रक्त बैंक (निम्नलिखित सहित)		100	100	
(क) पंजीकरण और चिकित्सा परीक्षण रूम				
(ख) रक्त संग्रहण रूम				
(ग) रक्त समूह सौरम-विज्ञान की प्रयोगशाला हेतु रूम				
(घ) संचारी रोगों जैसे हेपायाइटिस, सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी आदि की प्रयोगशाला हेतु रूम				
(ङ) निष्कीटन और बांधिंग रूम				
(च) रेफरेशमेंट रूम				
(छ) घांडार तथा अभिलेख रूम				
मूल्यांकन-विज्ञान				
सेवा प्रयोगशाला	7	25	175	बैक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, पेरासिटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, द्युबरकुलोसिस और इम्युनोलॉजी प्रत्येक के लिए।
म्यूजियम		100	100	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
द्युटर/प्रदर्शक	3	15	45	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
विभाग का जोड़			401	
औषध-विज्ञान				
प्रदर्शन रूम	1	45	45	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम		100	100	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	

1	2	3	4	5
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
दयूटर/प्रदर्शक	2	15	30	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>		<b>256</b>		
<b>विष-विज्ञान सहित फोरेंसिक</b>				
<b>चिकित्सा</b>				
प्रदर्शन रूप	1	45	45	कम से कम 50-60 छात्रों के लिए स्थान।
ऑटोप्सी ब्लॉक		400	400	
च्यूजियम		100	100	
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	1	12	12	
दयूटर/प्रदर्शक	2	15	15	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>		<b>629</b>		
<b>कम्युनिटी मेडिसिन</b>				
च्यूजियम		150	150	
<b>प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य</b>				
प्रशिक्षण केंद्र				
शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र				
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	15	30	
सांख्यकीय एवं व्याख्याता	1	12	12	
एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता	1	12	12	
दयूटर/प्रदर्शक	1	15	45	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	15	15	
<b>विभाग का जोड़</b>		<b>294</b>		
<b>कॉलेज जोड़</b>		<b>9436</b>		
<b>अध्यापन अस्पताल</b>				
डीन का रूप		36	36	
चिकित्सा अधीक्षक रूप		36	36	
सहायक कर्मचारियों के लिए		150	150	
अस्पताल कार्यालय				
आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय		300	300	
पृष्ठात्ते कार्यालय		50	50	

1	2	3	4	5
स्वागत रूम		300	300	
स्टोर रूम		500	500	
केंद्रीय चिकित्सा अभिलेख अनुभाग		200	200	
लाइनेन रूम		500	500	
अस्पताल और स्टाफ समिति रूम		60	60	
टाइप-1 गैलरी का केंद्रीय				
व्याख्यान थिएटर	1	330	330	150 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता
केन्द्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग		200	200	
केन्द्रीय प्रयोगशालाएं		150	150	
केन्द्रीय आपातकालीन विभाग (लघु ओ. टी. सहित)		150	150	
केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी		100	100	
केन्द्रीय रसोई		200	200	
इनसिनेरेटिंग प्लाट		40	40	
संयुक्त सुविधाएं			3302	

अस्पताल में नैदानिक विभाग ( 100 वार्षिक दाखिलों के लिए अपेक्षित बिस्तरों की संख्या 500 है )

#### बिस्तरे/यूनिट

जनरल मेडिसिन	102/4			
बाल-विज्ञान	60/2			
टी. बी. तथा श्वसन रोग	20/1			
डीबीएल	10/1			
मनोरोग-विज्ञान	8/1			
जनरल सर्जरी	102/4			
विकलांग-विज्ञान	60/2			
नेत्रविज्ञान	20/1			
ईएनटी	20/1			
प्रसूति-विज्ञान	30			
स्त्रीरोग-विज्ञान	20			
पोस्टपार्टम	5	60/2		
विभाग का जोड़	500	3500	3500	7 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर ( 2 बिस्तरों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, बिस्तरे की चौड़ाई 1 मीटर )

#### नैदानिक विभाग—अंतर्रंग

नर्स इयूटी रूम के लिए स्थान	20	20	
नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला	15	15	
परीक्षण और उपचार रूम	15	15	
वार्ड पंटी	15	15	
लाइनेन और अन्य उपस्कर्तों के लिए			
भण्डार रूम	15	15	
स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का			
इयूटी रूम	20	20	
प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय	20	20	

1	2	3	4	5
अन्य यूनिट स्टॉफ के लिए यूनिट				
प्रमुख का रूप	20		20	
नैदानिक प्रदर्शन रूप (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक)	20		20	
<b>18 बांडी/12 विभागों के लिए जोड़</b>		<b>2880</b>		
आँपरेशन थियेटर यूनिट				
रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूप	15		15	
तैयारी रूप	15		15	
आँपरेशन थियेटर	75		75	
पोस्ट-आँपरेटिव रिकवरी रूप	30		30	
सॉयल्ड लाइनेन रूप	15		15	
उपकरण रूप	15		15	
निष्कीटन रूप	15		15	
नसाँ का रूप	20		20	
सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का रूप	2	20	40	
सहायक का कमरा	20		20	
छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा	60		60	
भण्डार रूप	15		15	
वार्षिक रूप	10		10	
मरहम-पट्टी रूप	10		10	
कैंप्रीय निष्कीटन इकाई	10		10	
लौंडरी	10		10	
<b>10 ओटी. के लिए जोड़</b>	<b>10</b>		<b>3750</b>	
प्रसूति रूप				
रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूप	15		15	
तैयारी रूप	15		15	
प्रसूति रूप	100		100	
पोस्ट-आँपरेटिव रिकवरी रूप	75		30	
सॉयल्ड लाइनेन रूप	15		15	
उपकरण रूप	15		15	
निष्कीटन रूप	15		15	
नसाँ का रूप	20		20	
सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का रूप	20		40	
सहायक रूप	20		20	
छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा	30		30	
भण्डार रूप	15		15	
वार्षिक रूप	10		10	
मरहम-पट्टी रूप	10		10	
एक्लेप्सिया रूप	75		75	
लौंडरी	10		10	
<b>प्रसूति रूप के लिए जोड़</b>			<b>435</b>	

1	2	3	4	5
<b>विकारण-निदान</b>				
300 एमए, 500 एमए,		36		36
800 एमए, आईआईटीबी				
प्रणाली, प्लूरोस्कॉपी				
प्रणाली के लिए रूम				
अल्ट्रासाउंड रूम	15		15	
60 एमए सचल एक्स-रे प्रणाली	15		15	
के लिए रूम				
सीटी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान	20		20	
भंडार रूम	25		25	
चूजियम	25		25	
प्रतीक्षा रूम	40		40	
<b>विभाग का जोड़</b>		176		
<b>संचेतनाहरण-विज्ञान</b>				
ऑपरेशन थिएटरों में संचेतनाहरण				
विभाग के लिए स्थान				
विभागाध्यक्ष और यूनिटों के अध्यक्ष	20		20	
अन्य यूनिट कर्मचारियों के लिए स्थान	20		20	
नैदानिक प्रदर्शन रूम	20		20	
<b>विभाग का जोड़</b>		60		
<b>बैकल्पिक विभाग</b>				
विकिरण-चिकित्सा	100		100	
टेलीथेरेपी यूनिट	50		50	
इंट्राकेविटरी ट्रीटमेंट रूम	50		50	
एंडोकेविटरी सरफेस मॉल्ड थेरेपी	50		50	
रूम				
आयोजना रूम	50		50	
मेटलिंग उपचार के लिए रूम	50		50	
अभिलेख रूम	100		100	
चिकित्सा भौतिक प्रयोगशाला	50		50	
बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूम	200		200	
लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी के	70		70	
लिए दिवा देखभाल थार्ड				
<b>विभाग का जोड़</b>		720		
फिजिकल मेडिसिन और चुनवास	1500		1500	
नैदानिक विभाग-बहिरंग	6500		6500	
रोगियों और परिचरों के लिए				
प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूम				
पूछताछ और अभिलेख रूम				
प्रत्येक के लिए परीक्षण रूम और	4			प्रत्येक विभाग के लिए
मामले से संबंधित प्रदर्शन रूम				

1	2	3	4	5
<b>औषधालय</b>				
शास्त्रियचिकित्सा और इसकी विशेषज्ञताओं के लिए मरहम-				
चट्टी रूम				
नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूम, छार्क रूम, ड्रेसिंग रूम, नेत्र विभाग में प्लास्टर रूम, प्लास्टर कटिंग रूम				
ईएनटी विभाग में सोडंड प्रूफ ऑडियोमीटरी रूम, ईएनजी प्रेयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष				
आलंचिकित्सा विभाग में बाल कल्याण इन्युनाइजेशन रूम आदि ओजीबी विभाग में प्रसूति-पूर्व, परिवार कल्याण, स्टरिलिटी, कैंसर अभिज्ञान नैदानिक दंत-चिकित्सा अनुभाग				
<b>ओपीडी जोड़</b>		6500		
<b>अस्पताल जोड़</b>		21323		
<b>आकाशीय ब्याटर/छाप्रावास</b>				
शिक्षण के 20% की दर से ब्याटर (का 20% =)	4400	4400		
गैर-शिक्षण स्टाफ के 20% की दर से ब्याटर (का 20% =)	3600	3600		
नसौं की संख्या के 20% की दर ब्याटर से (का 20% =)	4500	4500		
रेजिडेंट की संख्या के 100% की दर से =	3000	3000		
इंटर्स की संख्या के 100% की दर से	2700	2700		
375 छात्रों के लिए छाप्रावास (अर्थात् 500 के 75% =)		3375		
<b>आकाशीय परिसर का जोड़</b>		21575		
<b>समुल जोड़</b>		52384		
<b>15% जोड़ें</b>		7858		
<b>सकल जोड़</b>		60242		

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

**No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein.

3. In Schedule (I), Clause A. I.1 of the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 13-11-2009 and 30-01-2010 under the heading ‘CAMPUS’, be further amended by inserting the following proviso in Clause A. I.1 in Schedule I :—

“Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute—i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in “Minimum Requirements for the Medical College for 100 Admissions Annually Regulations, 1999” as amended in 2008/2009 as shown in separate table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09/Exty.]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Minimum Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

## APPENDIX

## BUILT UP AREA REQUIREMENTS (100 ADMISSIONS)

Item Detail	No.	Area (Sq.m.) (each)	Total (Sq.m)	Remarks
1	2	3	4	5
<b>Administrative Block</b>				
Principal/Dean's office		36	36	
Staff room		54	54	
College council room		80	80	
Officer Superintendent's room		10	10	
Office		150	150	
Record room		100	100	
Examination Hall		300	300	
Common Room - Boys		100	100	
-Girls		100	100	
Cafeteria		200	200	
Central Library		1600	1600	
Lecture Theatres	3	330	990	120 Seating capacity
	1	660	660	250 seating capacity
Auditorium	1	800	800	500-700 seating capacity

1	2	3	4	5
Common laboratories	6	170	1020	
	2	75	150	
<b>Central Research Laboratory</b>	1	100	100	
<b>Department Total</b>			<b>6450</b>	
<b>DEPARTMENTS</b>				
<b>Anatomy</b>				
Demonstration room	2	45	90	Accommodate atleast 50-60 students
Dissection Hall	1	250	250	Accommodate atleast 100 students
Museum		150	150	Accommodate 25 students to study in the museum
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	20	40	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>647</b>	
<b>Physiology including Bio-physics</b>				
Demonstration room	1	45	45	Accommodate atleast 50-60 students
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	20	40	
Tutor Demonstrators	4	15	15	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>157</b>	
<b>Biochemistry</b>				
Demonstration room	1	45	45	Accommodate atleast 50-60 students
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>174</b>	
<b>Pathology</b>				
Demonstration room	1	45	45	Accommodate atleast 50-60 students
Museum		150	150	

1	2	3	4	5
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	3	12	36	
Tutor/Demonstrators	5	15	75	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<u>378</u>	
<b>Blood Bank (includes)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
(a) Registration & Medical Examination room				
(b) Blood Collection room				
(c) Room for Laboratory for Blood Group Serology				
(d) Room for Lab. for Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies etc.				
(e) Sterilization and washing room				
(f) Refreshment room				
(g) Store and Records room				
<b>Microbiology</b>				
Service Laboratory	7	25	175	Each for bacteriology, serology, virology, parasitology, mycology, tuberculosis and immunology
Museum		100	100	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	3	15	45	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<u>401</u>	
<b>Pharmacology</b>				
Demonstration room	1	45	45	Accommodate atleast 50-60 students
Museum		100	100	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	2	15	30	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<u>256</u>	

1	2	3	4	5
<b>Forensic Med. Including Toxicology</b>				
Demonstration room	1	45	45	Accommodate atleast 50-60 students.
Autopsy Block		400	400	
Museum		100	100	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	2	15	15	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>629</b>	
<b>Community Medicine</b>				
Museum		150	150	
Primary Health Centre/Rural Health Training Centre				
Urban Health Training Centre				
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	2	15	30	
Statistician-cum-Lecturer	1	12	12	
Epidemiologist-cum-Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	1	15	15	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	15	15	
<b>Department Total</b>			<b>294</b>	
<b>COLLEGE TOTAL</b>			<b>9486</b>	
<b>Teaching Hospital</b>				
Dean's room		36	36	
Medical Superintendent's room		36	36	
Hospital offices for the supportive staff		150	150	
Waiting space for visitors		300	300	
Enquiry Office		50	50	
Reception		300	300	
Store rooms		500	500	
Central Medical Record Section		200	200	
Linen rooms		500	500	
Hospital & Staff Committee room		60	60	
Central Lecture theatre of gallery type	1	330	330	Seating capacity of 150 persons
Central Registration and statistics department		200	200	

1	2	3	4	5
Central Laboratories		150	150	
Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.)		150	150	
Central Hospital Pharmacy		100	100	
Central Kitchen		200	200	
Incinerating Plant		40	40	
<b>Common Facilities</b>			<b>3302</b>	

**Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 100 admission annual is 500) :—**

		beds/units	
General Medicine		120/4	
Paediatrics		60/2	
TB & Respiratory Diseases		20/1	
DVL		10/1	
Psychiatry		10/1	
General Surgery		120/4	
Orthopedics		60/2	
Ophthalmology		20/1	
ENT		20/1	
Obstetrics	35		
Gynaecology	20		
Postpartum	5	60/2	
<b>Department Total</b>		<b>500</b>	<b>3500</b>

7 Sq.m. per bed (1.5 m distance b/w 2 beds;  
Bed width 1m')

**Clinical Departments - Indoor**

Accommodation for Nurses Duty room	20	20
Laboratory for routine examinations	15	15
Examination and treatment room	15	15
Ward Pantry	15	15
Store room for linen and other equipments	15	15
Resident Doctors and students duty room	20	20
Office for Heads of each Department & Heads of Units	20	20
Room for other unit staff	20	20
Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department)	20	20
<b>Total for 14 Wards /12 Departments</b>		<b>2880</b>

**Operation Theatre Unit**

Waiting room for patients	15	15
Preparation room	15	15
Operation Theatre	75	75
Post-operative recovery room	30	30
Soiled Linen room	15	15
Instrument room	15	15
Sterilisation room	15	15
Nurses room	20	20
Surgeon's and Anaesthetist's room	2	20
Assistant's room		20
Observation gallery for students		60

1	2	3	4	5
Store rooms		15	15	
Washing room		10	10	
Dressing up room		10	10	
Central Sterilisation Unit		10	10	
Laundry		10	10	
<b>Total for 10 O.Ts.</b>	<b>10</b>	<b>3750</b>		
<b>Labour Room</b>				
Waiting room for patients		15	15	
Preparation room		15	15	
Labour Room		100	100	
Post-Partum Recovery Room		75	75	
Soiled Linen room		15	15	
Instrument room		15	15	
Sterilisation room		15	15	
Nurses room		20	20	
Surgeon's and Anaesthetist's room		20	40	
Assistant's room		20	20	
Observation gallery for students		30	30	
Store rooms		15	15	
Washing room		10	10	
Dressing room		10	10	
Eclampsia room		75	75	
Laundry		10	10	
<b>Total for Labour Room</b>			<b>435</b>	
<b>Radio Diagnosis</b>				
Room for 300mA, 500mA, 800mA IITV		36	36	
System, Fluoscopy System		15	15	
Ultrasound room		15	15	
Room for 60mA Mobile X-Ray System		15	15	
Accommodation for CT-Scan System		20	20	
Store room		25	25	
Museum		25	25	
Waiting room		40	40	
<b>Department Total</b>			<b>176</b>	
<b>Anaesthesiology</b>				
Accommodation for the Anaesthesia Deptt. in Operation theatres				
Office for HOD & Heads of Units		20	20	
Accommodation for other unit staff		20	20	
Clinical Demonstration room		20	20	
<b>Department Total</b>			<b>60</b>	
<b>Optional Departments</b>				
<b>Radiotherapy</b>				
Teletherapy Unit		100	100	
Intracavitary Treatment room		50	50	
Endocavitary surface mould therapy room		50	50	
Planning room		50	50	

1	2	3	4	5
Room for metalling treatment		50	50	
Record room		100	100	
Medical physics Lab.		50	50	
Outpatient waiting room		200	200	
Day care ward for short chemotherapy/ Radiotherapy		70	70	
<b>Department Total</b>			<b>720</b>	
Physical Medicine & Rehabilitation		1500	1500	
<b>Clinical Departments - Out door</b>		<b>6500</b>	<b>6500</b>	
Waiting reception space rooms for patients and attendants				
Enquiry and record room				
Examination rooms and case				
Demonstration rooms for each	4			For each department
Dispensary				
Dressing room in surgery & its specialities				
Refraction rooms, dark rooms, dressing rooms in Ophthalmic Deptt.				
Plaster room, plaster cutting room etc. in Orthopedics Deptt.				
Sound proof audiometry room, ENG Lab., speech therapy rooms in ENT Deptt.				
Child welfare, immunization room etc. in paediatrics Deptt.				
Antenatal, family welfare, sterility, cancer detection clinics in OBG Deptt.				
Dental Section				
<b>OPD TOTAL</b>			<b>6500</b>	
<b>HOSPITAL TOTAL</b>			<b>21323</b>	
<b>Residential Quarters/Hostels</b>				
Qtrs. @ 20% teaching 20% of		4400	4400	
Qtrs. @ 20% Non-teaching 20% of		3600	3600	
Nurses @ 20%		4500	4500	
Residents @100%		3000	3000	
Interns @ 100%		2700	2700	
Hostels for 375 students (i.e. @75% of 500)			3375	
<b>TOTAL RESIDENTIAL COMPLEX</b>			<b>21575</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>52384</b>	
<b>ADD 15%</b>			<b>7858</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>60242</b>	

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. आ.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./76567.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010” कहा जाए।
- (ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन दर्शाएं जाएंगे :—

3. दिनांक 8-7-2009, 13-11-2009 और 30-1-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (1) वै ‘परिषद’ शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.1 में, अनुसूची I, खंड क.1.1 में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर पुनः संशोधित किया जाए :

“बशर्ते कि 2008/2009 में यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” में किए गए संशोधनों के संबंध में, इसके साथ संलग्न अलग सारणी में दर्शाएं गए अनुसार, महानगरों (मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई) और ‘ए’ श्रेणी के शहरों (अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बंगलौर और कानपुर) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर, किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात् कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और आवासीय परिसर की पूरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र कम से कम 10 एकड़ के भूखंड में उपलब्ध कराया जाए।”

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 तथा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट

निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताएं (150 दाखिले)

मद विवरण	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (प्रत्येक)	जोड़ (वर्ग मीटर)	अन्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
<b>प्रशासनिक ख्लॉक</b>				
प्रधानाचार्य/डीन का कार्यालय		36	36	
स्टाफ रूम		54	54	
कॉलेज परिषद् रूम		80	80	
कार्यालय अधीक्षक रूम		10	10	
कार्यालय		150	150	
अभिलेख रूम		100	100	
कॉम्पन रूम - छात्र		150	150	
- छात्राएं		150	150	
कैफेटेरिया		300	300	
केन्द्रीय पुस्तकालय		2400	2400	
व्याख्यान थियेटर	4	495	1980	180 के बैठने की क्षमता।
	1	600	660	350 के बैठने की क्षमता।

1	2	3	4	5
आँडिटोरियम	1	1200	1200	500-700, 750-1000 के बैठने की क्षमता।
कॉमन प्रयोगशालाएं	6	245	1470	
	2	110	220	
केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	1	100	100	
विभाग का जोड़			<b>9060</b>	

**विभाग****शरीर-रचना विज्ञान**

प्रदर्शन रूप	2	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान।
विच्छेदन हाल	1	325	325	कम से कम 150 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम		200	200	म्यूजियम में पढ़ने के लिए 35 छात्रों के लिए स्थान।

**स्टाफ के लिए स्थान**

प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	3	20	60	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>837</b>	

**जीव-भौतिकी सहित शरीरक्रिया-विज्ञान**

प्रदर्शन रूप	2	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान।
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	3	20	60	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>312</b>	

**जीव-रसायन**

प्रदर्शन रूप	2	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान।
--------------	---	----	-----	---------------------------------------

**स्टाफ के लिए स्थान**

प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
ट्युटर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूप	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूप	1	12	12	
विभाग का जोड़			<b>261</b>	

1	2	3	4	5
<b>रोग-विज्ञान</b>				
प्रदर्शन रूम	1	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम	1	90	90	
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	3	15	45	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	4	12	48	
ट्युटोर/प्रदर्शक	6	15	90	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>			<b>435</b>	
<b>रक्त बैंक (निम्नलिखित सहित)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
(क) पंजीकरण और चिकित्सा				
परीक्षण रूम				
(ख) रक्त संग्रहण रूम				
(ग) रक्त समूह सौरभ-विज्ञान				
की प्रयोगशाला हेतु रूम				
(घ) संचारी रोगों जैसे हेपाटाइटिस,				
सिफलिस, मलेरिया, एचआईवी, शरीर-रोधी				
आदि की प्रयोगशाला हेतु रूम				
(ङ) निष्कीटन और चाशिंग रूम				
(च) रेफरेशमेंट रूम				
(छ) भंडार तथा अधिलेख रूम				
<b>सूक्ष्मजीव-विज्ञान</b>				बैक्टेरियोलॉजी, सेरोलॉजी, विरोलॉजी, परासिटोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस और इम्युनोलॉजी प्रत्येक के लिए।
<b>सेवा प्रयोगशाला</b>	7	25	175	
म्यूजियम		80	80	
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
ट्युटोर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>			<b>411</b>	
<b>औषध-विज्ञान</b>				
प्रदर्शन रूम	2	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान।
म्यूजियम		125	125	
<b>स्टाफ के लिए स्थान</b>				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	

1	2	3	4	5
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
दस्टर/प्रदर्शक	3	15	45	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>			<b>386</b>	
<b>दिव्य-विज्ञान सहित फोरेंसिक चिकित्सा</b>				
प्रदर्शन रूम	2	60	120	कम से कम 75-100 छात्रों के लिए स्थान ।
ऑटोप्सी ब्लॉक		400	400	
म्यूजिसम		175	175	
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	1	15	15	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	2	12	24	
दस्टर/प्रदर्शक	3	15	45	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टाफ रूम	1	12	12	
<b>विभाग का जोड़</b>			<b>821</b>	
<b>कम्प्युनिटी मेडिसिन</b>				
म्यूजियम		150	150	
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य				
प्रशिक्षण केंद्र				
शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र				
स्टाफ के लिए स्थान				
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष	1	18	18	
एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	2	15	30	
सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	3	15	45	
सॉलिङ्कीविद एवं व्याख्याता	1	12	12	
एपिडेमियोलॉजिस्ट एवं व्याख्याता	1	12	12	
दस्टर/प्रदर्शक	4	15	60	
विभाग कार्यालय/लिपिकीय रूम	1	12	12	
गैर-शिक्षण स्टॉफ रूम	1	15	15	
<b>विभाग का जोड़</b>			<b>354</b>	
<b>कॉलेज जोड़</b>			<b>12977</b>	
<b>अध्यापन अस्पताल</b>				
डीन का रूम		36	36	
चिकित्सा अधीक्षक रूम		36	36	
सहायक कर्मचारियों के लिए				
अस्पताल कार्यालय		150	150	
आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय		450	450	

1	2	3	4	5
पूछताछ कार्यालय		50	50	
स्वागत रूम		400	400	
स्टोर रूम		600	600	
केंद्रीय चिकित्सा अधिकारी अनुभाग		250	250	
लाइनेन रूम		500	500	
अस्पताल और स्टाफ समिति रूम		80	80	
टाइप-1 गैलरी का केंद्रीय				
व्याख्यान थिएटर	1	495	495	200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता।
केन्द्रीय पंजीकरण और सांख्यिकी विभाग		200	200	
केन्द्रीय प्रयोगशालाएं		150	150	
केन्द्रीय आपातकालीन विभाग				
(लघु ओ. टी. सहित)		150	150	
केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी		100	100	
केन्द्रीय रसोई		200	200	
इनसिनेरीटिंग प्लांट		40	40	
संयुक्त सुविधाएं				3887

अस्पताल में नैदानिक विभाग ( 150 वार्षिक दाखिलों के लिए अपेक्षित विस्तरों की संख्या 750 है ) :

#### विस्तर/यूनिट

जनरल मेडिसिन	80/6			
बाल-विज्ञान	90/3			
टी.बी. तथा श्वसन रोग	30/1			
डीवीएल	15/1			
मनोरोग-विज्ञान	15/1			
जनरल सर्जरी	180/6			
विकलांग-विज्ञान	90/3			
नेप्रविज्ञान	30/1			
ईएनटी	30/1			
प्रसूति-विज्ञान	50			
स्त्रीरोग-विज्ञान	32			
पोस्टपार्टन	8	90/3		
विभाग का जोड़	750	5250	5250	7 वर्ग मीटर प्रति विस्तर ( 2 विस्तरों के बीच की दूरी 1.5 मीटर, विस्तरे की चौड़ाई 1 मीटर )

#### नैदानिक विभाग-अंतरंग

नर्स इयूटी रूम के लिए स्थान	20	20	
नैत्य परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला	15	15	
परीक्षण और उपचार रूम	15	15	
बार्ड पेंट्री	15	15	
लाइनेन और अन्य उपस्करों के लिए			
भण्डार रूम	15	15	

1	2	3	4	5
स्थानीय डॉक्टरों और छात्रों का				
इयूटी रूम	20	20		
प्रत्येक विभागाध्यक्ष का कार्यालय	20	20		
अन्य यूनिट स्टॉफ के लिए यूनिट				
प्रमुख का रूम	20	20		
नैदानिक प्रदर्शन रूम (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक)	20	20		
<b>25 छाड़ी/12 विभागों के</b>				
<b>लिए जोड़</b>		<b>4000</b>		
ऑपरेशन थियेटर यूनिट				
रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम	15	15		
तैयारी रूम	15	15		
ऑपरेशन थियेटर	75	75		
पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम	30	30		
सॉयल्ड लाइनेन रूम	15	15		
उपकरण रूम	15	15		
निष्कीटन रूम	15	15		
नसों का रूम	20	20		
सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का रूम	2	20	40	
सहायक का कमरा		20	20	
छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा		60	60	
भण्डार रूम		15	15	
बांशिंग रूम		10	10	
मरहम-पट्टी रूम		10	10	
केंद्रीय निष्कीटन इकाई		10	10	
लौंडरी		10	10	
<b>11 ओ.टी. के लिए जोड़</b>	<b>11</b>	<b>4125</b>		
प्रसूति रूम				
रोगियों के लिए प्रतीक्षा रूम	15	15		
तैयारी रूम	15	15		
प्रसूति रूम	100	100		
पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम	75	75		
सॉयल्ड लाइनेन रूम	15	15		
उपकरण रूम	15	15		
निष्कीटन रूम	15	15		
नसों का रूम	20	20		
सर्जन और एनेस्थेटिस्ट का रूम	20	20		
सहायक रूम	20	20		
छात्रों के लिए पर्यवेक्षण दीर्घा	30	30		
भण्डार रूम	15	15		
बांशिंग रूम	10	10		

1	2	3	4	5
मरहम-पट्टी रूम		10	10	
एकलेस्प्रिया रूम		75	75	
लौंडरी		10	10	
प्रसूति रूम के लिए जोड़			460	
विकीरण-निदान				
300 एमए, 500 एमए,				
800 एमए, आईआईटीची				
प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी				
प्रणाली के लिए रूम		36	36	
अस्ट्रासाउंड रूम		15	15	
60 एमए सचल एक्स-रे प्रणाली		15	15	
के लिए रूम				
सीटी स्कैन प्रणाली के लिए स्थान		80	80	
भंडार रूम		15	15	
म्यूजियम		25	25	
प्रतीक्षा रूम		40	40	
विभाग का जोड़			226	
संचेतनाहरण-विज्ञान				
ऑपरेशन थियेटरों में संचेतनाहरण				
विभाग के लिए स्थान				
विभागाध्यक्ष और यूनिटों के अध्यक्ष		20	20	
अन्य यूनिट कर्मचारियों के लिए स्थान		20	20	
नैदानिक प्रदर्शन रूम		20	20	
विभाग का जोड़			60	
वैकल्पिक विभाग				
विकिरण-चिकित्सा		100	100	
टेलीथेरेपी यूनिट		50	50	
इंटराकेविटरी ट्रीटमेंट रूम		50	50	
एंडोकेबिटरी सरफेस मॉल्ड थेरेपी		50	50	
रूम				
आयोजना रूम		50	50	
मेटालिंग उपचार के लिए रूम		50	50	
अभिलेख रूम		100	100	
चिकित्सा थैरेपी प्रयोगशाला		50	50	
बहिरंग-रोगी प्रतीक्षा रूम		200	200	
अंतरंग-रोगी बिस्तरे		200	200	
लघु कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी के				
लिए दिवा देखभाल वार्ड		70	70	
विभाग का जोड़			920	

1	2	3	4	5
फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास		1500	1500	
मैदानिक विभाग-बहिरंग		7500	7500	
रोगियों और परिचरों के लिए				
प्रतीक्षा स्थान/स्वागत रूम				
पूछताछ और अभिलेख रूम				
प्रत्येक के लिए परीक्षण रूम और	4			प्रत्येक विभाग के लिए
मामले से संबंधित प्रदर्शन रूम				
औषधालय				
शल्पचिकित्सा और इसकी				
विशेषज्ञताओं के लिए मरहम-				
पट्टी रूम				
नेत्र विभाग में रिफ्रेक्शन रूम, डार्क				
रूम, ड्रेसिंग रूम, नेत्र विभाग में				
प्लास्टर रूम, प्लास्टर कटिंग रूम				
ईएनटी विभाग में साउंड प्रूफ				
ऑडियोमीटरी रूम, ईएनजी				
प्रयोगशाला, वाणी चिकित्सा कक्ष				
बालचिकित्सा विभाग में बाल				
कल्याण, इम्युनाइज़ेशन रूम आदि				
ओजीबी विभाग में प्रसूति-पूर्व,				
परिवार कल्याण, स्टरिलिटी, कैंसर				
अभिज्ञान नैदानिक				
दंत-चिकित्सा अनुभाग				
ओपीडी जोड़		7500		
अस्पताल जोड़		26428		
आवासीय क्वार्टर/छात्रावास				
शिक्षण के 20 प्रतिशत की दर से				
क्वार्टर (146 का 20 प्रतिशत =30)	200	6000		
गैर-शिक्षण स्टाफ के 20 प्रतिशत की दर से				
क्वार्टर (200 का 20 प्रतिशत =40)	100	4000		
नसों की संख्या के 20 प्रतिशत की दर				
से क्वार्टर (330 का 20 प्रतिशत =66)	100	6600		
रेजिडेंट की संख्या के 100 प्रतिशत				
की दर से =115	20	2300		
इंटर्स की संख्या के 100 प्रतिशत की दर से	1500	1500		
563 छात्रों के लिए छात्रावास				
(अर्थात् 750 के 75 प्रतिशत की दर से)	10	6000		
आवासीय परिसर का जोड़		26400		
कुल जोड़		65805		
15 प्रतिशत जोड़		9871		
सकल जोड़		75676		

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI. 34 (41)/2009-Med./76567.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :
3. In Schedule (I), Clause A.I.I of the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 8-7-2009, 13-11-2009 & 30-1-2010 under the heading ‘CAMPUS’, be further amended by inserting the following proviso in Clause A.I.I in Schedule I :—

“Provided that the built-up area required for the total infrastructure of a medical institute — i.e. college, affiliated teaching hospital and residential complex with regard to amendments in “Minimum Requirements for the Medical College for 150 Admissions Annually Regulations, 1999” as amended in 2008/2009 as shown in separate Table appended herewith is made available by the institute in mega cities (Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai) and ‘A’ class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) based upon permissible FAR/FSI allowed by the competent authority in a plot of an area of not less than 10 acres.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09/Exty.]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

## APPENDIX

## BUILT UP AREA REQUIREMENTS (150 ADMISSIONS)

Item Detail	No.	Area (Sq.m.) (each)	Total (Sq.m)	Remarks
<b>Administrative Block</b>				
Principal/Dean's office		36	36	
Staff room		54	54	
College council room		80	80	
Officer Superintendent's room		10	10	
Office		150	150	
Record room		100	100	
Common Room—Boys		150	150	
—Girls		150	150	
Cafeteria		300	300	
Central Library		2400	2400	
Lecture Theatres	4	495	1980	180 seating capacity
	1	600	660	350 seating capacity
Auditorium	1	1200	1200	500-700-750-1000.
Common laboratories	6	245	1470	

1	2	3	4	5
Central Research Laboratory	2 1	110 100	220 100	
<b>Department Total</b>			<b>9060</b>	

**DEPARTMENTS****Anatomy**

Demonstration room	2	60	120	Accommodate atleast 75-100 students
Dissection Hall	1	325	325	Accommodate atleast 150 students
Museum		200	200	Accommodate 35 students to study in the museum

**Accommodation for Staff**

Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	3	20	60	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	

<b>Department Total</b>	<b>837</b>
-------------------------	------------

**Physiology including Bio-physics**

Demonstration room	2	60	120	Accommodate atleast 75-100 students
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	3	20	60	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	

<b>Department Total</b>	<b>312</b>
-------------------------	------------

**Biochemistry**

Demonstration room	2	60	120	Accommodate atleast 75-100 students
<b>Accommodation for Staff</b>				
Professor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	

<b>Department Total</b>	<b>261</b>
-------------------------	------------

**Pathology**

Demonstration room	2	60	120	Accommodate atleast 75-100 students
Museum	1	90	90	

1	2	3	4	5
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	3	15	45	
Asst. Prof./Lecturer	4	12	48	
Tutor/Demonstrators	6	15	90	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>435</b>	
<b>Blood Bank (includes)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
(a) Registration & Medical Examination room				
(b) Blood Collection room				
(c) Room for Laboratory for Blood Group Serology				
(d) Room for Lab. For Transmissible diseases like Hepatitis, Syphilis, Malaria, HIV antibodies etc.				
(e) Sterilisation and washing room				
(f) Refreshment room				
(g) Store and Records room				
<b>Microbiology</b>				
Service Laboratory	7	25	175	
<b>Museum</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>411</b>	
<b>Pharmacology</b>				
Demonstration room	2	60	120	
<b>Museum</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	3	15	45	
Department office/ Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>386</b>	
<b>Forensic Med. Including Toxicology</b>				
Demonstration room	2	60	120	
<b>Accommodate atleast 75-100 students</b>				

1	2	3	4	5
Autopsy Block		400	400	
Museum		175	175	
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	1	15	15	
Asst. Prof./Lecturer	2	12	24	
Tutor/Demonstrators	3	15	45	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	12	12	
<b>Department Total</b>			<b>821</b>	
<b>Community Medicine</b>				
Museum		150	150	
Primary Health Centre/Rural Health Training Centre				
Urban Health Training Centre				
<b>Accommodation for Staff</b>				
Profesor & Head	1	18	18	
Asso. Prof./Reader	2	15	30	
Asst. Prof./Lecturer	3	15	45	
Statistician-cum-Lecturer	1	12	12	
Epidemiologist-cum-Lecturer	1	12	12	
Tutor/Demonstrators	4	15	60	
Department office/Clerical room	1	12	12	
Non-teaching staff room	1	15	15	
<b>Department Total</b>			<b>354</b>	
<b>COLLEGE TOTAL</b>			<b>12977</b>	
<b>Teaching Hospital</b>				
Dean's room		36	36	
Medical Superintendent's room		36	36	
Hospital offices for the supportive staff		150	150	
Waiting space for visitors		450	450	
Enquiry Office		50	50	
Reception		400	400	
Store rooms		600	600	
Central Medical Record Section		250	250	
Linen rooms		500	500	
Hospital & Staff Committee room		80	80	
Central Lecture theatre of gallery type	1	495	495	Seating capacity of 200 persons
Central Registration and Statistics Department		200	200	
Central Laboratories		150	150	
Central Casualty Department (Incl. Minor O.T.)		150	150	
Central Hospital Pharmacy		100	100	
Central Kitchen		200	200	
Incinerating Plant		40	40	
<b>Common Facilities</b>			<b>3887</b>	

1	2	3	4	5
<b>Clinical Departments in the Hospital (No. of beds required for 150 admission annual is 750) :-</b>				
		beds/units		
General Medicine		180/6		
Paediatrics		90/3		
TB & Respiratory Diseases		30/1		
DVL		15/1		
Psychiatry		15/1		
General Surgery		180/6		
Orthopaedics		90/3		
Ophthalmology		30/1		
ENT		30/1		
Obstetrics	50			
Gynaecology	32			
Postpartum	8	90/3		
<b>Department Total</b>		<b>750</b>	<b>5250</b>	<b>5250</b>
7 Sq.m. per bed (1.5 m distance b/w 2. beds; Bed width 1m')				
<b>Clinical Departments - Indoor</b>				
Accommodation for Nurses Duty room		20	20	
Laboratory for routine examinations		15	15	
Examination and treatment room		15	15	
Ward Pantry		15	15	
Store room for linen and other equipments		15	15	
Resident Doctors & Students duty room		20	20	
Office for Heads of each Department & Heads of units		20	20	
Room for other unit staff		20	20	
Clinical Demonstration rooms (atleast one for each department)		20	20	
<b>Total for 25 Wards /12 Departments</b>			<b>4000</b>	
<b>Operation Theatre Unit</b>				
Waiting room for patients		15	15	
Preparation room		15	15	
Operation Theatre		75	75	
Post-operative recovery room		30	30	
Soiled Linen room		15	15	
Instrument room		15	15	
Sterilisation room		15	15	
Nurses room		20	20	
Surgeion's and Anaesthetist's room	2	20	40	
Assistant's room		20	20	
Observation Gallery for students		60	60	
Store rooms		15	15	
Washing room		10	10	
Dressing up room		10	10	
Central Sterilisation Unit		10	10	
Laundry		10	10	
<b>Total for 11 O. T. s</b>		<b>11</b>	<b>4125</b>	

1	2	3	4	5
<b>Labour Room</b>				
Waiting Room for Patients	15	15		
Preparation Room	15	15		
Labour Room	100	100		
Post Partum Recovery Room	75	75		
Soiled Linen Room	15	15		
Instrument Room	15	15		
Sterilisation Room	15	15		
Nurses room	20	20		
Surgeion's and Anaesthetist's room	20	20		
Assistant's Room	20	20		
Observation Gallery for Students	30	30		
Store Rooms	15	15		
Washing Room	10	10		
Dressing up Room	10	10		
Eclampsia Room	75	75		
Laundry	10	10		
<b>Total for Labour room</b>		<b>460</b>		
<b>Radio-diagnosis</b>				
Room for 300mA, 500mA, 800mA				
IITV system, Fluroscopy System	36	36		
Ultrasound room	15	15		
Room for 60mA Mobile X-Ray System	15	15		
Accommodation for CT Scan System	80	80		
Store room	15	15		
Museum	25	25		
Waiting room	40	40		
<b>Department Total</b>		<b>226</b>		
<b>Anaesthesiology</b>				
Accommodation for the Anaesthesia Depat. in Operation Theatres				
Office for HOD & Heads of Units	20	20		
Accommodation for other unit staff	20	20		
Clinical Demonstration Rooms	20	20		
<b>Department Total</b>		<b>60</b>		
<b>Optional Departments</b>				
<b>Radiotherapy</b>				
Teletherapy Unit	100	100		
Intracavitory Treatment room	50	50		
Endocavitory surface mould therapy Room	50	50		
Planning room	50	50		
Room for metalling treatment	50	50		
Record Room	100	100		
Medical Physics Lab.	50	50		

1	2	3	4	5
Out Patient Waiting Room		200	200	
Indoor beds		200	200	
Day care ward for short chemotherapy/radiotherapy, etc.	70		70	
<b>Department Total</b>			<b>920</b>	
Physical Medicine & Rehabilitation		1500	1500	
<b>Clinical Departments - out door</b>		<b>7500</b>	<b>7500</b>	
Waiting/reception space rooms for patients and attendants				
Enquiry and record room				
Examination rooms & case demonstration rooms for each	4			For each department
Dispensary				
Dressing room in surgery & its specialities				
Refraction rooms, dark rooms, dressing rooms in Ophthalmic dep.				
Plaster room, plaster cutting room etc. in Orthopaedics dep.				
Sound proof audiometry room, ENG lab., speech therapy rooms in ENT dep.				
Child welfare, immunization room etc. in paediatrics dep.				
Antenatal, family welfare, sterility, cancer detection clinics in OBG dep.				
Dental Section				
<b>OPD TOTAL</b>			<b>7500</b>	
<b>HOSPITAL TOTAL</b>			<b>26428</b>	
Residential Quarters/Hostels				
Qtrs. @ 20% teaching (20% of 146 = 30)	200		6000	
Qtrs. @ 20% Non-teaching (20% of 200 = 40)	100		4000	
Nurses @ 20% (20% of 330 = 66)	100		6600	
Residents @ 100% = 115	20		2300	
Interns @ 100%	1500		1500	
Hostels for 563 students (i.e. @ 75% of 750)	10		6000	
<b>TOTAL RESIDENTIAL COMPLEX</b>			<b>26400</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>65805</b>	
ADD 15%			<b>9871</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>75676</b>	